



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1140]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 2003/पौष 1, 1925

No. 1140]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2003/PAUSA 1, 1925

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2003

का.आ. 1452(अ).— केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 958 (अ) तारीख 21 अगस्त, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा, जो भारत के राजपत्र, (असाधारण), भाग-2, खंड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 22 अगस्त, 2003 को प्रकाशित की गई थी, उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में 0.000 कि. मी. से 53.410 कि.मी. तक (बालासोर से लक्ष्मणनाथ खण्ड) में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 का संनिर्माण और चौड़ा करने के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार 7 सितम्बर, 2003 को स्थानीय समाचार पत्र “ध्वनि प्रतिध्वनि” और 8 सितम्बर, 2003 को “संवाद” में प्रकाशित किया गया था ;

उक्त अधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजन के लिए इस भूमि के उपयोग के संबंध में लोगों से प्राप्त हुए आक्षेपों पर विचार किया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें अननुज्ञात कर दिया गया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

(1)

और, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

जिला-बालासोर, तहसील-बालासोर, गाँव -रुद्रगोपालपुर

क्रम सं.	खाता सं.	प्लॉट सं.	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	163	241	निजी	0.14
2.	192	242	निजी	0.08
3.	31	386	निजी	0.01
4.	222	385	निजी	0.24
5.	222	384	निजी	0.09
6.	227/88	383	निजी	0.09
7.	111	381	निजी	0.08
8.	194	376	निजी	0.08
9.	201	370/721	निजी	0.01
10.	238	246	सरकारी	0.10

[फा. सं. भारासप्रा/11014/3डी/पीआईयू(केजीपी)/2003/सीपीडी(सीके)]

ए.वी. सिंह, सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2003

S.O. 1452(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 958(E), dated the 21st August 2003 (hereinafter referred to as the said notification), issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), (hereinafter referred to as the said act) published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India (Extraordinary) dated 22nd August 2003, the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule appended to that notification for the public purpose of building and widening of National Highways No. 60 on the stretch from km. 0.000 to 53.410 (Balasore to Laxmannath Section) in Balasore District, in the State of Orissa;

And whereas the substance of the said notification has been published in local newspapers 'Dhwani Pratidhwani' dated 7th September 2003 and 'Sambad' dated 8th September 2003;

And whereas the objections received from the public to the use of the land for the purpose mentioned in the said notification, have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule, shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

District:- Balasore, Tahasil:- Balasore, Village- Rudragopalpur

SI No	Khata No.	Plot No	Type of Land	Area of land in acres
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	163	241	Private	0.14
2.	192	242	Private	0.08
3.	31	386	Private	0.01
4.	222	385	Private	0.24
5.	222	384	Private	0.09
6.	227/88	383	Private	0.09
7.	111	381	Private	0.08
8.	194	376	Private	0.08
9.	201	370/721	Private	0.01
10.	238	246	Government	0.10

[F. No. NHA/11014/3D/PIU(KGP)/2003/CPD(CK)]

A. V. SINGH, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2003

का.आ. 1453(अ).— केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 959 (अ) तारीख 21 अगस्त, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा, जो भारत के राजपत्र, (असाधारण), भाग-2, खंड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 22 अगस्त, 2003 को प्रकाशित की गई थी, उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में 0.000 कि. मी. से 53.410 कि.मी. तक (बालासोर से लक्ष्मणनाथ खण्ड) में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 का संनिर्माण और चौड़ा करने के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार 7 सितम्बर, 2003 को स्थानीय समाचार पत्र “ध्वनि प्रतिध्वनि” और 8 सितम्बर, 2003 को “संवाद” में प्रकाशित किया गया था ;

उक्त अधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजन के लिए इस भूमि के उपयोग के संबंध में लोगों से प्राप्त हुए आक्षेपों पर विचार किया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें अननुज्ञात कर दिया गया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी ।

अनुसूची

जिला-बालासोर, तहसील-बालासोर, गाँव -पडाबडगाँव

क्रम सं.	खाता सं.	प्लॉट सं.	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	170	1864	निजी	0.06
2.	504	1863	निजी	0.08
3.	810	1862	निजी	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	877	1875	निजी	0.16
5.	810	1874	निजी	0.05
6.	965	1962	सरकारी	0.06
7.	965	1963	सरकारी	0.23
8.	504	1966	निजी	0.06
9.	965	1964	सरकारी	0.04
10.	169	1873	निजी	0.03

[फा. सं. भाराप्र/11014/3डी/पीआईयू(केजीपी)/2003/सीपीडी(सीके)]

ए.वी. सिंह, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2003

S.O. 1453(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 959(E), dated the 21st August 2003 (hereinafter referred to as the said notification), issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), (hereinafter referred to as the said act) published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India (Extraordinary) dated 22nd August 2003, the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule appended to that notification for the public purpose of building and widening of National Highways No. 60 on the stretch from km. 0.000 to 53.410 (Balasore to Laxmannath Section) in Balasore District, in the State of Orissa;

And whereas the substance of the said notification has been published in local newspapers 'Dhwani Pratidhwani' dated 7th September 2003 and 'Sambad' dated 8th September 2003;

And whereas the objections received from the public to the use of the land for the purpose mentioned in the said notification, have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule, shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

District:- Balasore, Tahasil:- Balasore, Village:- Padabadgaon

Sl No	Khata No.	Plot No	Type of Land	Area of land in Acres
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	170	1864	Private	0.06
2.	504	1863	Private	0.08
3.	810	1862	Private	0.01
4.	877	1875	Private	0.16
5.	810	1874	Private	0.05
6.	965	1962	Government	0.06
7.	965	1963	Government	0.23
8.	504	1966	Private	0.06
9.	965	1964	Government	0.04
10.	169	1873	Private	0.03

[F. No. NHA/11014/3D/PIU(KGP)/2003/CPD(CK)]

A. V. SINGH, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2003

का.आ. 1454(अ).— केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 960 (अ) तारीख 21 अगस्त, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा, जो भारत के राजपत्र, (असाधारण), भाग-2, खंड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 22 अगस्त, 2003 को प्रकाशित की गई थी, उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में 0.000 कि. मी. से 53.410 कि.मी. तक (बालासोर से लक्ष्मणनाथ खण्ड) में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 का संनिर्माण और चौड़ा करने के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार 7 सितम्बर, 2003 को स्थानीय समाचार पत्र “ध्वनि प्रतिध्वनि” और 8 सितम्बर, 2003 को “संवाद” में प्रकाशित किया गया था ;

उक्त अधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजन के लिए इस भूमि के उपयोग के संबंध में लोगों से प्राप्त हुए आक्षेपों पर विचार किया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें अननुज्ञात कर दिया गया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी ।

अनुसूची

जिला-बालासोर, तहसील-बस्ता

क.स.	गाउँ का नाम	खाता.नं	प्लट.नं	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल हकत में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	राइकुआँ	26	943	निजी	0.02
		216	944	निजी	0.03
		3	924	निजी	0.10
		321	774/1049	निजी	0.03
		357	775	निजी	0.27
		342	920	निजी	0.05
		364	911	निजी	0.03
		357	781	निजी	0.11
		352	782	निजी	0.13
		285	783	निजी	0.05
		356	784	निजी	0.02
		186	999	निजी	0.03
2	नयापडा	35	70/821	निजी	0.06
3	कादमीदा	3	353	निजी	0.01
		7	380	निजी	0.01
		14	169	निजी	0.12
		15	377	निजी	0.01
		25	365	निजी	0.02
		28	371	निजी	0.01
		28	372	निजी	0.06
		29	352	निजी	0.01
		29	355	निजी	0.04
		46	373	निजी	0.01
		56	174	निजी	0.02
		16	163	निजी	0.02
		89	173	निजी	0.01
		130	360	निजी	0.05
		130	356	निजी	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		135	358	निजी	0.08
		83	366	निजी	0.06
		144	172	सरकारी	0.06
		144	157	सरकारी	0.01
		144	158	सरकारी	0.01
		145	334	सरकारी	0.21
		146	363	सरकारी	0.01
4	मलायाहार	156	177	निजी	0.01
		156	180	निजी	0.09
		156	181	निजी	0.10
		38	207	निजी	0.03
		82	208	निजी	0.02
		101	597	निजी	0.03
		118	559	निजी	0.03
		118	558	निजी	0.01
		53	553	निजी	0.02
		103	189	निजी	0.03
		149	187	निजी	0.01
		120	219	निजी	0.01
		184	185	सरकारी	0.08
		184	202	सरकारी	0.02
		184	576	सरकारी	0.08
		185	201	सरकारी	0.02
		185	148	सरकारी	0.07
		185	634	सरकारी	0.03
		185	596	सरकारी	0.02
		185	598	सरकारी	0.01
		185	599	सरकारी	0.02
		185	594	सरकारी	0.02
		185	593	सरकारी	0.02
		185	592	सरकारी	0.02
		185	560	सरकारी	0.01
		183	590	सरकारी	0.02
		183	561	सरकारी	0.02
5	दुधहँसा	49	1229	निजी	0.03
		49	1228	निजी	0.02
		165	1227	निजी	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		304	1222	निजी	0.03
		304	1223	निजी	0.02
6	मथाली	68	271	निजी	0.01
		53	269	निजी	0.01
		94	270	सरकारी	0.02
		43	268	निजी	0.02
		72	248	निजी	0.01
		36	249	निजी	0.02
		42	250	निजी	0.02
		48	247	निजी	0.06
		49	231	निजी	0.08
		76	299	निजी	0.02
		68	273	निजी	0.06
		73	264	निजी	0.04
		69	265	निजी	0.06
		33	255	निजी	0.02
		31	253	निजी	0.01
		49	251	निजी	0.02
7	पुनर्निर्माण	164	109	निजी	0.01
		181	110	निजी	0.01
		221/3	112	निजी	0.08
		136/55	113	निजी	0.01
		95	114	निजी	0.04
		44	115	निजी	0.02
		128	154	निजी	0.20
		152	155	निजी	0.04
		226	152	सरकारी	0.03
		225	151	सरकारी	0.02
		226	184	सरकारी	0.04
		224	271	सरकारी	0.03
		226	613	सरकारी	0.20
		226	612	सरकारी	0.02
		226	611	सरकारी	0.04
		291	503	निजी	0.02
		52	504	निजी	0.23
		204	502	निजी	0.01
		103	497	निजी	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		24	510	निजी	0.09
		42	495	निजी	0.04
		29	490	निजी	0.04
		136	493	निजी	0.04
		92	485	निजी	0.12
		168	488	निजी	0.06
		97	487	निजी	0.02
		169	476	निजी	0.02
		26	475	निजी	0.02
		92	474	निजी	0.03
		29	472	निजी	0.07
		28	466	निजी	0.03
		224	465	सरकारी	0.67
		201	463	निजी	0.03
		180	462	निजी	0.06
		151	108	निजी	0.23
		2	107	निजी	0.18
		127	111	निजी	0.02
		42	496	निजी	0.04
		176	428	निजी	0.01
		18	429	निजी	0.03
		148	430	निजी	0.04
		209	431	निजी	0.01
		120	434	निजी	0.01
		31	435	निजी	0.01
		18	451	निजी	0.01
		186	453	निजी	0.08
		221/53	454	निजी	0.14
		116	456	निजी	0.04
		180	457	निजी	0.02
		64	478	निजी	0.02
		42	479	निजी	0.01
		54	469	निजी	0.05
		93	468	निजी	0.03
		72	363	निजी	0.01
8	कुडिआ	330	816	निजी	0.10
		347	815	निजी	0.08
		175	814	निजी	0.06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		330	812	निजी	0.02
		160	811	निजी	0.02
		420	810	निजी	0.01
		427	817	सरकारी	0.20
		160	795	निजी	0.03
		420	794	निजी	0.04
		383	796	निजी	0.01
		72	798	निजी	0.08
		72	797	निजी	0.01
		399	697	निजी	0.09
		2	698	निजी	0.08
		227	707	निजी	0.05
		227	708	निजी	0.03
		115	709	निजी	0.04
		227	677	निजी	0.03
		115	676	निजी	0.02
		91	667	निजी	0.18
		157	668	निजी	0.07
		418	647	निजी	0.06
		418	648	निजी	0.13
		47	602	निजी	0.02
		395	603	निजी	0.03
		424	606	निजी	0.08
		26	607	निजी	0.01
		427	652	सरकारी	0.02
		95	608	निजी	0.01
		95	609	निजी	0.03
		429	42	सरकारी	0.03
		160	41	निजी	0.04
		429	43	सरकारी	0.10
		424	67	निजी	0.18
		191	39	निजी	0.09
		420	38	निजी	0.06
		424/5	36	निजी	0.07
		359	65	निजी	0.04
		218	63	निजी	0.03
		313	50	निजी	0.05
		41	51	निजी	0.01
		429	28	सरकारी	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		100	53	निजी	0.01
		157	669	निजी	0.04
		420	40	निजी	0.01
		400	76	निजी	0.06
9	वाऊँसमुखा	269	832	निजी	0.41
		229	835	निजी	0.03
		415/82	835/1030	निजी	0.06
		415/83	836	निजी	0.11
		415/47	830	निजी	0.14
		415/82	837	निजी	0.07
		21	838	निजी	0.15
		415/82	838/1025	निजी	0.07
10	वारमाहिआ	223	769	निजी	0.05
		56	780	निजी	0.04
		31	765	निजी	0.11
		56	763	निजी	0.09
		256	764	निजी	0.03
		260	762	निजी	0.13
		65	750	निजी	0.10
		160	749	निजी	0.10
		145	772	निजी	0.12
		171	775	निजी	0.05
		52	781	निजी	0.01
11	करीदवाहिआ	266	310	सरकारी	0.03
		34	249/309	निजी	0.04
		67	247/307	निजी	0.18
		106	248/308	निजी	0.02
		152	308/407	निजी	0.02
12	मागिरशिपुर	92	235	निजी	0.04
		94	236	निजी	0.27
		89/7	92/249	निजी	0.32
		32	91/248	निजी	0.04
		44	87/244	निजी	0.17
		86	46/243	निजी	0.03
		94	242	निजी	0.72

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		94	241	निजी	0.56
		94	237	निजी	1.02
13	नीरवीन्तपुर	227	32	निजी	0.04
		225	31	निजी	0.26
14	घरहमपुर	343	939	निजी	0.31
		343	937	निजी	0.06
		83	870	निजी	0.11
		83	871	निजी	0.06
		83	872	निजी	0.03
		461	873	निजी	0.01
		83	869	निजी	0.02
		247	868	निजी	0.01
		332	1032	निजी	0.24
		399	865	निजी	0.09
		94	1037	निजी	0.01
		462	962	सरकारी	0.20
		462	831	सरकारी	0.01
15	सन्तोषपुर	1	29	निजी	0.03
		16	500	निजी	0.05
		36	358	निजी	0.03
		41	488	निजी	0.06
		74	503	निजी	0.03
		82	504	निजी	0.04
		92	807	निजी	0.07
		264	201	निजी	0.03
		262	502	निजी	0.02
		275	501	निजी	0.03
		380/1	470	निजी	0.13
		105	481	निजी	0.06
		106	202	निजी	0.18
		112	22	निजी	0.04
		380/37	23	निजी	0.02
		115	834	निजी	0.06
		380/42	835	निजी	0.03
		380/30	835/1223	निजी	0.03
		127	354	निजी	0.15
		127	475	निजी	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		140	836	निजी	0.04
		171	505	निजी	0.02
		175	341	निजी	0.02
		192	356	निजी	0.07
		380/34	487	निजी	0.03
		246	837	निजी	0.02
		247	825	निजी	0.44
		253	20	निजी	0.11
		380/23	489	निजी	0.02
		312	40	निजी	0.05
		321	25	निजी	0.06
		380/9	357	निजी	0.04
		346	808	निजी	0.02
		348	203	निजी	0.07
		348	196	निजी	0.19
		380/1	1207	निजी	0.08
		349	195	निजी	0.02
		380/37	24	निजी	0.02
		374	832	निजी	0.11
		378	28	निजी	0.02
		378	30	निजी	0.03
		288	833	निजी	0.02
		386	997	सरकारी	0.05
		386	352	सरकारी	0.10
		383	473	सरकारी	0.16
		383	472	सरकारी	0.12
		383	480	सरकारी	0.02
		383	490	सरकारी	0.03
		383	342	सरकारी	0.03
		385	42	सरकारी	0.02
		385	804	सरकारी	0.02
		102	141	निजी	0.15
		273	142	निजी	0.03
		273	143	निजी	0.13
		347	148	निजी	0.16
		248	191	निजी	0.01
		252	192	निजी	0.13
		309	193	निजी	0.16
		312	194	निजी	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		348	196	निजी	0.06
		348	203	निजी	0.07
		329	240	निजी	0.11
		178	241	निजी	0.07
		257	242	निजी	0.06
		285	243	निजी	0.05
		53	244	निजी	0.14
		16	245	निजी	0.15
		234	313	निजी	0.01
		287	314	सरकारी	0.04
		201	315	निजी	0.01
		347	320	निजी	0.1
		347	321	निजी	0.11
		219	322	निजी	0.02
		240	323	निजी	0.06
		175	341	निजी	0.02
		161	104	निजी	0.12
		175	101	निजी	0.12
		201	100	निजी	0.02
16	मेल्होरा	366	63	निजी	0.03
		89	124	निजी	0.01
		93	126	निजी	0.04
		179	62	निजी	0.06
		185	127	निजी	0.05
		185	130	निजी	0.07
		218	15	निजी	0.26
		222	166	निजी	0.11
		224	131	निजी	0.08
		232	67	निजी	0.01
		299	61	निजी	0.06
		310	129	निजी	0.13
		310	132	निजी	0.02
		212	128	निजी	0.16
		323	16	निजी	0.10
		342	64	निजी	0.07
		459	14	निजी	0.01
		407	19	निजी	0.18
		407	20	निजी	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		472	12	सरकारी	0.02
		472	113	सरकारी	0.12
		472	112	सरकारी	0.03
		473	13	सरकारी	0.10
		473	3	सरकारी	0.05
		473	41	सरकारी	0.24
		473	46	सरकारी	0.30
		473	51	सरकारी	0.02
		469	17	सरकारी	0.05
		469	18	सरकारी	0.09
		469	44	सरकारी	0.07
17	धेन्गुरीआ	21	325	निजी	0.01
		54	311	निजी	0.03
		54	312	निजी	0.20
		54	317	निजी	0.06
		54	318	निजी	0.25
		54	319	निजी	0.04
		54	320	निजी	0.08
		82	322	निजी	0.01
		82	326	निजी	0.16
		104	327	निजी	0.05
		109	310	निजी	0.04
		109	314	निजी	0.12
		109	321	निजी	0.03
		119	351	निजी	0.03
		143	309	निजी	1.08
		146	313/839	निजी	0.02
		213/49	350/902	निजी	0.03
		213/48	349/852	निजी	0.01
		215	354	सरकारी	0.01
		217	316	सरकारी	0.04
		217	358	सरकारी	0.10
		183	337	निजी	0.10
		191	338	निजी	0.10
		183	339	निजी	0.11
		217	340	सरकारी	0.01
		183	341	निजी	0.07
		217	343	सरकारी	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		169	344	निजी	0.09
		143	348	निजी	0.35
		168	479	निजी	0.08
		134	346	निजी	0.03
		143	348	निजी	0.1
		149	349	निजी	0.24
		215	350	निजी	0.08
		119	351	निजी	0.04
		215	352	निजी	0.01
		23	353	निजी	0.01
		215	354	निजी	0.01
18	खेनापुर	129	249	निजी	0.03
		129	250	निजी	0.10
		91	253	निजी	0.02
		71	260	निजी	0.07
		83	261	निजी	0.07
		83	262	निजी	0.08
		83	264	निजी	0.06
		153	263	सरकारी	0.02
		153	258	सरकारी	0.01
19	अलाउल	82	7/7	निजी	1.00
		68	3/3	निजी	0.06

[फा. सं. भारासप्रा/11014/3डी/पीआईयू(केजीपी)/2003/सीपीडी(सीके)]

ए.वी. सिंह, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2003

S.O. 1454(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 960(E), dated the 21st August 2003 (hereinafter referred to as the said notification), issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), (hereinafter referred to as the said act) published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India (Extraordinary) dated 22nd August 2003, the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule appended to that notification for the public purpose of building and widening of National Highways No. 60 on the stretch from km. 0.000 to 53.410 (Balasore to Laxmannath Section) in Balasore District, in the State of Orissa;

And whereas the substance of the said notification has been published in local newspapers 'Dhwani Pratidhwani' dated 7th September 2003 and 'Sambad' dated 8th September 2003;

And whereas the objections received from the public to the use of the land for the purpose mentioned in the said notification, have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule, shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

District:- Balasore, Tahasil:- Basta

SI No	Name of the Village	Khata No.	Plot No	Type of Land	Area of land in Acres
1	2	3	4	5	6
1	Raisuan	26	943	Private	0.02
		216	944	Private	0.03
		3	924	Private	0.10
		321	774/1049	Private	0.03
		357	775	Private	0.27
		342	920	Private	0.05
		364	911	Private	0.03
		357	781	Private	0.11
		352	782	Private	0.13
		285	783	Private	0.05
		356	784	Private	0.02
		186	999	Private	0.03
2	Nayapada	35	70/821	Private	0.06
3	Kadamouda	3	353	Private	0.01
		7	380	Private	0.01
		14	169	Private	0.12
		15	377	Private	0.01
		25	365	Private	0.02
		28	371	Private	0.01
		28	372	Private	0.06
		29	352	Private	0.01
		29	355	Private	0.04
		46	373	Private	0.01
		56	174	Private	0.02
		16	163	Private	0.02
		89	173	Private	0.01
		130	360	Private	0.05
		130	356	Private	0.04
		135	358	Private	0.08
		83	366	Private	0.06
		144	172	Government	0.06
		144	157	Government	0.01
		144	158	Government	0.01
		145	334	Government	0.21
		146	363	Government	0.01

1	2	3	4	5	6
4	Nalbahar	156	177	Private	0.01
		156	180	Private	0.09
		156	181	Private	0.10
		38	207	Private	0.03
		82	208	Private	0.02
		101	597	Private	0.03
		118	559	Private	0.03
		118	558	Private	0.01
		53	553	Private	0.02
		103	189	Private	0.03
		149	187	Private	0.01
		120	219	Private	0.01
		184	185	Government	0.08
		184	202	Government	0.02
		184	576	Government	0.08
		185	201	Government	0.02
		185	148	Government	0.07
		185	634	Government	0.03
		185	596	Government	0.02
		185	598	Government	0.01
		185	599	Government	0.02
		185	594	Government	0.02
		185	593	Government	0.02
		185	592	Government	0.02
		185	560	Government	0.01
		183	590	Government	0.02
		183	561	Government	0.02
5	Dudhahansa	49	1229	Private	0.02
		49	1228	Private	0.02
		165	1227	Private	0.03
		304	1222	Private	0.03
		304	1223	Private	0.02
6	Mathani	68	271	Private	0.01
		53	269	Private	0.01
		94	270	Government	0.02
		43	268	Private	0.02
		72	248	Private	0.01
		36	249	Private	0.02
		42	250	Private	0.02
		48	247	Private	0.06
		49	231	Private	0.08

1	2	3	4	5	6
		76	299	Private	0.02
		68	273	Private	0.06
		73	264	Private	0.04
		69	265	Private	0.06
		33	255	Private	0.02
		31	253	Private	0.01
		49	251	Private	0.02
7	Punsita	164	109	Private	0.01
		181	110	Private	0.01
		221/3	112	Private	0.08
		136/55	113	Private	0.01
		95	114	Private	0.04
		44	115	Private	0.02
		128	154	Private	0.20
		152	155	Private	0.04
		226	152	Government	0.03
		225	151	Government	0.02
		226	184	Government	0.04
		224	271	Government	0.03
		226	613	Government	0.20
		226	612	Government	0.02
		226	611	Government	0.04
		291	503	Private	0.02
		52	504	Private	0.23
		204	502	Private	0.01
		103	497	Private	0.05
		24	510	Private	0.09
		42	495	Private	0.04
		29	490	Private	0.04
		136	493	Private	0.04
		92	485	Private	0.12
		168	488	Private	0.06
		97	487	Private	0.02
		169	476	Private	0.02
		26	475	Private	0.02
		92	474	Private	0.03
		29	472	Private	0.07
		28	466	Private	0.03
		224	465	Government	0.67
		201	463	Private	0.03
		180	462	Private	0.06
		151	108	Private	0.23

1	2	3	4	5	6
		2	107	Private	0.18
		127	111	Private	0.02
		42	496	Private	0.04
		176	428	Private	0.01
		18	429	Private	0.03
		148	430	Private	0.04
		209	431	Private	0.01
		120	434	Private	0.01
		31	435	Private	0.01
		18	451	Private	0.01
		186	453	Private	0.08
		221/53	454	Private	0.14
		116	456	Private	0.04
		180	457	Private	0.02
		64	478	Private	0.02
		42	479	Private	0.01
		54	469	Private	0.05
		93	468	Private	0.03
		72	363	Private	0.01
8	Kudia	330	816	Private	0.10
		347	815	Private	0.08
		175	814	Private	0.06
		330	812	Private	0.02
		160	811	Private	0.02
		420	810	Private	0.01
		427	817	Government	0.20
		160	795	Private	0.03
		420	794	Private	0.04
		383	796	Private	0.01
		72	798	Private	0.08
		72	797	Private	0.01
		399	697	Private	0.09
		2	698	Private	0.08
		227	707	Private	0.05
		227	708	Private	0.03
		115	709	Private	0.04
		227	677	Private	0.03
		115	676	Private	0.02
		91	667	Private	0.18
		157	668	Private	0.07
		418	647	Private	0.06
		418	648	Private	0.13

1	2	3	4	5	6
		47	602	Private	0.02
		395	603	Private	0.03
		424	606	Private	0.08
		26	607	Private	0.01
		427	652	Government	0.02
		95	608	Private	0.01
		95	609	Private	0.03
		429	42	Government	0.03
		160	41	Private	0.04
		429	43	Government	0.10
		424	67	Private	0.18
		191	39	Private	0.09
		420	38	Private	0.06
		424/5	36	Private	0.07
		359	65	Private	0.04
		218	63	Private	0.03
		313	50	Private	0.05
		41	51	Private	0.01
		429	28	Government	0.01
		100	53	Private	0.01
		157	669	Private	0.04
		420	40	Private	0.01
		400	76	Private	0.06
9	Baunsamukha	269	832	Private	0.41
		229	835	Private	0.03
		415/82	835/1030	Private	0.06
		415/83	836	Private	0.11
		415/47	830	Private	0.14
		415/82	837	Private	0.07
		21	838	Private	0.15
		415/82	838/1025	Private	0.07
10	Barmadhia	223	769	Private	0.05
		56	780	Private	0.04
		31	765	Private	0.11
		56	763	Private	0.09
		256	764	Private	0.03
		260	762	Private	0.13
		65	750	Private	0.10
		160	749	Private	0.10
		145	772	Private	0.12
		171	775	Private	0.05

1	2	3	4	5	6
		52	781	Private	0.01
11	Koreibatia	266	310	Government	0.03
		34	249/309	Private	0.04
		67	247/307	Private	0.18
		106	248/308	Private	0.02
		152	308/407	Private	0.02
12	Bhagirathipur	92	235	Private	0.04
		94	236	Private	0.27
		89/7	92/249	Private	0.32
		32	91/248	Private	0.04
		44	87/244	Private	0.17
		86	46/243	Private	0.03
		94	242	Private	0.72
		94	241	Private	0.56
		94	237	Private	1.02
13	Nishintapur	227	32	Private	0.04
		225	31	Private	0.26
14	Berahampur	343	939	Private	0.31
		343	937	Private	0.06
		83	870	Private	0.11
		83	871	Private	0.06
		83	872	Private	0.03
		461	873	Private	0.01
		83	869	Private	0.02
		247	868	Private	0.01
		332	1032	Private	0.24
		399	865	Private	0.09
		94	1037	Private	0.01
		462	962	Government	0.20
		462	831	Government	0.01
15	Santoshpur	1	29	Private	0.03
		16	500	Private	0.05
		36	358	Private	0.03
		41	488	Private	0.06
		74	503	Private	0.03
		82	504	Private	0.04
		92	807	Private	0.07
		264	201	Private	0.03

1	2	3	4	5	6
		262	502	Private	0.02
		275	501	Private	0.03
		380/1	470	Private	0.13
		105	481	Private	0.06
		106	202	Private	0.18
		112	22	Private	0.04
		380/37	23	Private	0.02
		115	834	Private	0.06
		380/42	835	Private	0.03
		380/30	835/1223	Private	0.03
		127	354	Private	0.15
		127	475	Private	0.05
		140	836	Private	0.04
		171	505	Private	0.02
		175	341	Private	0.02
		192	356	Private	0.07
		380/34	487	Private	0.03
		246	837	Private	0.02
		247	825	Private	0.44
		253	20	Private	0.11
		380/23	489	Private	0.02
		312	40	Private	0.05
		321	25	Private	0.06
		380/9	357	Private	0.04
		346	808	Private	0.02
		348	203	Private	0.07
		348	196	Private	0.19
		380/1	1207	Private	0.08
		349	195	Private	0.02
		380/37	24	Private	0.02
		374	832	Private	0.11
		378	28	Private	0.02
		378	30	Private	0.03
		288	833	Private	0.02
		386	997	Government	0.05
		386	352	Government	0.10
		383	473	Government	0.16
		383	472	Government	0.12
		383	480	Government	0.02
		383	490	Government	0.03
		383	342	Government	0.03
		385	42	Government	0.02
		385	804	Government	0.02

1	2	3	4	5	6
		102	141	Private	0.15
		273	142	Private	0.03
		273	143	Private	0.13
		347	148	Private	0.16
		248	191	Private	0.01
		252	192	Private	0.13
		309	193	Private	0.16
		312	194	Private	0.01
		348	196	Private	0.06
		348	203	Private	0.07
		329	240	Private	0.11
		178	241	Private	0.07
		257	242	Private	0.06
		285	243	Private	0.05
		53	244	Private	0.14
		16	245	Private	0.15
		234	313	Private	0.01
		287	314	Government	0.04
		201	315	Private	0.01
		347	320	Private	0.10
		347	321	Private	0.11
		219	322	Private	0.02
		240	323	Private	0.06
		175	341	Private	0.02
		161	104	Private	0.12
		175	101	Private	0.12
		201	100	Private	0.02
16	Vellora	366	63	Private	0.03
		89	124	Private	0.01
		93	126	Private	0.04
		179	62	Private	0.06
		185	127	Private	0.05
		185	130	Private	0.07
		218	15	Private	0.26
		222	166	Private	0.11
		224	131	Private	0.08
		232	67	Private	0.01
		299	61	Private	0.06
		310	129	Private	0.13
		310	132	Private	0.02
		212	128	Private	0.16
		323	16	Private	0.10

1	2	3	4	5	6
		342	64	Private	0.07
		459	14	Private	0.01
		407	19	Private	0.18
		407	20	Private	0.02
		472	12	Government	0.02
		472	113	Government	0.12
		472	112	Government	0.03
		473	13	Government	0.10
		473	3	Government	0.05
		473	41	Government	0.24
		473	46	Government	0.30
		473	51	Government	0.02
		469	17	Government	0.05
		469	18	Government	0.09
		469	44	Government	0.07
17	Thenguria	21	325	Private	0.01
		54	311	Private	0.03
		54	312	Private	0.20
		54	317	Private	0.06
		54	318	Private	0.25
		54	319	Private	0.04
		54	320	Private	0.08
		82	322	Private	0.01
		82	326	Private	0.16
		104	327	Private	0.05
		109	310	Private	0.04
		109	314	Private	0.12
		109	321	Private	0.03
		119	351	Private	0.03
		143	309	Private	1.08
		146	313/839	Private	0.02
		213/49	350/902	Private	0.03
		213/48	349/852	Private	0.01
		215	354	Government	0.01
		217	316	Government	0.04
		217	358	Government	0.10
		183	337	Private	0.10
		191	338	Private	0.10
		183	339	Private	0.11
		217	340	Government	0.01
		183	341	Private	0.07
		217	343	Government	0.02

1	2	3	4	5	6
		169	344	Private	0.09
		143	348	Private	0.35
		168	479	Private	0.08
		134	346	Private	0.03
		143	348	Private	0.10
		149	349	Private	0.24
		215	350	Private	0.08
		119	351	Private	0.04
		215	352	Private	0.01
		23	353	Private	0.01
		215	354	Private	0.01
18	Benapur	129	249	Private	0.03
		129	250	Private	0.10
		91	253	Private	0.02
		71	260	Private	0.07
		83	261	Private	0.07
		83	262	Private	0.08
		83	264	Private	0.06
		153	263	Government	0.02
		153	258	Government	0.01
19	Aloacl	82	7/7	Private	1.00
		68	3/3	Private	0.06

[File No. NHAI/11014/3D/PIU(KGP)/2003/CPD(CK)]

[F. No. NHAI/11014/3D/PIU(KGP)/2003/CPD(CK)]

A. V. SINGH, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2003

का.आ. 1455(अ).— केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 961(अ) तारीख 21 अगस्त, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा, जो भारत के राजपत्र, (असाधारण), भाग-2, खंड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 22 अगस्त, 2003 को प्रकाशित की गई थी, उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में 0.000 कि. मी. से 53.410 कि.मी. तक (बालसोर से लक्ष्मणनाथ खण्ड) में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 का संनिर्माण और चौड़ा करने के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार 7 सितम्बर, 2003 को स्थानीय समाचार पत्र “ध्वनि प्रतिध्वनि” और 8 सितम्बर, 2003 को “संवाद” में प्रकाशित किया गया था ;

उक्त अधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजन के लिए इस भूमि के उपयोग के संबंध में लोगों से प्राप्त हुए आक्षेपों पर विचार किया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें अननुज्ञात कर दिया गया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब , केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी ।

अनुसूची

जिला-बालासोर, तहसील-जलेश्वर

क्र.स.	गाउँ का नाम	खाता.नं	प्लट.नं	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	चालन्ती	375/9	1879	निजी	0.02
		100	1881	निजी	0.03
		375/38	1876	निजी	0.02
		226	1875	निजी	0.03
		24	714	निजी	0.01
		267	1831	निजी	0.04
		375/55	1834	निजी	0.03
		375/54	1834/2235	निजी	0.05
		275/187	1836	निजी	0.09
		375/155	1835	निजी	0.09
		375/155	1837	निजी	0.08
		375/198	1838	निजी	0.07
		375/114	1840	निजी	0.05
		375/198	1839	निजी	0.05
		205	1841	निजी	0.08
		285	1842	सरकारी	0.02
		73	1856	निजी	0.12
		73	1857	निजी	0.11
		6	1854	निजी	0.01
		383	1858	सरकारी	0.02
		10	1832	निजी	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2)	नन्दीका	312	1172	निजी	0.15
		491/83	1173	निजी	0.15
		373	1174	निजी	0.03
		344	1454	निजी	0.13
		491/61	1146	निजी	0.22
		318	1297	निजी	0.01
		355	1143	निजी	0.01
		491/91	1082	निजी	0.03
		247	1079	निजी	0.03
		381	1078	निजी	0.11
		206	1074	निजी	0.03
		90	1075	निजी	0.09
		191	1076	निजी	0.02
		90	787	निजी	0.04
		210	788	निजी	0.01
(3)	राधानगर	97	215	निजी	0.03
		59	211	निजी	0.10
		29	210	निजी	0.04
		36	214/271	निजी	0.04
		70	247	निजी	0.05
		131/3	238	निजी	0.05
		131/16	241	निजी	0.06
		131/8	240	निजी	0.09
		131/3	239	निजी	0.02
		112	242	निजी	0.06
		11	214	निजी	0.07
(4)	कुस्ननगर	173/13	372	निजी	0.14
		173/87	370	निजी	0.14
		173/87	370/444	निजी	0.08
		71	368	निजी	0.01
		72	373/428	निजी	0.09
		173/60	373	निजी	0.09
		67	375	निजी	0.06
		173/49	377	निजी	0.08
		8	378	निजी	0.03
		101	369	निजी	0.06
(5)	सान्तीआ	769	1050	निजी	0.07
		41	1047	निजी	0.07
		813	1031	निजी	0.14
		685	1029	निजी	0.15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		743	1018	निजी	0.15
		463	1005	निजी	0.13
		365	996	निजी	0.18
		511	995	निजी	0.07
		135	994	निजी	0.03
		922/439	600	निजी	0.07
		518	599	निजी	0.11
		178	601	निजी	0.05
		611	603	निजी	0.1
		922/382	1025	निजी	0.04
		36	1026	निजी	0.06
		922/47	1023	निजी	0.02
		178	1027	निजी	0.07
		743	1019	निजी	0.13
		107	1020	निजी	0.02
		859	1003	निजी	0.14
		859	1002	निजी	0.01
		789	998	निजी	0.08
		789	984	निजी	0.14
		767	986	निजी	0.07
		673	987	निजी	0.01
		73	993	निजी	0.08
		832	991/2475	निजी	0.07
		832	991	निजी	0.05
		922/302	992	निजी	0.03
		307	615	निजी	0.17
		938	613	सरकारी	0.09
		596	621	निजी	0.04
		813	668	निजी	0.09
		156	664	निजी	0.06
		156	667	निजी	0.05
		307	665	निजी	0.04
		704	663	निजी	0.01

[फा. सं. भारताप्रा/11014/3डी/पीआईयू(केजीपी)/2003/सीपीडी(सीके)]

ए.वी. सिंह, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2003

S.O. 1455(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 961(E), dated the 21st August 2003 (hereinafter referred to as the said notification), issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), (hereinafter referred to as the said act) published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India (Extraordinary) dated 22nd August 2003, the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule appended to that notification for the public purpose of building and widening of National Highways No. 60 on the stretch from km. 0.000 to 53.410 (Balasore to Laxmannath Section) in Balasore District, in the State of Orissa;

And whereas the substance of the said notification has been published in local newspapers 'Dhwani Pratidhwani' dated 7th September 2003 and 'Sambad' dated 8th September 2003;

And whereas the objections received from the public to the use of the land for the purpose mentioned in the said notification, have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule, shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

District:- Balasore, Tahasil:- Jaleswar

SI No	Name of the Village	Khata No.	Plot No	Type of Land	Area of land in Acres
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	Chalanty	375/9	1879	Private	0.02
		100	1881	Private	0.03
		375/38	1876	Private	0.02
		226	1875	Private	0.03
		24	714	Private	0.01
		267	1831	Private	0.04
		375/55	1834	Private	0.03
		375/54	1834/2235	Private	0.05
		275/187	1836	Private	0.09
		375/155	1835	Private	0.09
		375/155	1837	Private	0.08
		375/198	1838	Private	0.07
		375/114	1840	Private	0.05
		375/198	1839	Private	0.05
		205	1841	Private	0.08
		285	1842	Government	0.02
		73	1856	Private	0.12
		73	1857	Private	0.11
		6	1854	Private	0.01
		383	1858	Government	0.02
		10	1832	Private	0.01
(2)	Nandika	312	1172	Private	0.15
		491/83	1173	Private	0.15
		373	1174	Private	0.03
		344	1454	Private	0.13
		491/61	1146	Private	0.22
		318	1297	Private	0.01
		355	1143	Private	0.01
		491/91	1082	Private	0.03
		247	1079	Private	0.03
		381	1078	Private	0.11
		206	1074	Private	0.03
		90	1075	Private	0.09
		191	1076	Private	0.02
		90	787	Private	0.04
		210	788	Private	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(3)	Radhanagar	97	215	Private	0.03
		59	211	Private	0.10
		29	210	Private	0.04
		36	214/271	Private	0.04
		70	247	Private	0.05
		131/3	238	Private	0.05
		131/16	241	Private	0.06
		131/8	240	Private	0.09
		131/3	239	Private	0.02
		112	242	Private	0.06
		11	214	Private	0.07
(4)	Krushnanagar	173/13	372	Private	0.14
		173/87	370	Private	0.14
		173/87	370/444	Private	0.08
		71	368	Private	0.01
		72	373/428	Private	0.09
		173/60	373	Private	0.09
		67	375	Private	0.06
		173/49	377	Private	0.08
		8	378	Private	0.03
		101	369	Private	0.06
(5)	Santia	769	1050	Private	0.07
		41	1047	Private	0.07
		813	1031	Private	0.14
		685	1029	Private	0.15
		743	1018	Private	0.15
		463	1005	Private	0.13
		365	996	Private	0.18
		511	995	Private	0.07
		135	994	Private	0.03
		922/439	600	Private	0.07
		518	599	Private	0.11
		178	601	Private	0.05
		611	603	Private	0.1
		922/382	1025	Private	0.04
		36	1026	Private	0.06
		922/47	1023	Private	0.02
		178	1027	Private	0.07
		743	1019	Private	0.13
		107	1020	Private	0.02
		859	1003	Private	0.14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		859	1002	Private	0.01
		789	998	Private	0.08
		789	984	Private	0.14
		767	986	Private	0.07
		673	987	Private	0.01
		73	993	Private	0.08
		832	991/2475	Private	0.07
		832	991	Private	0.05
		922/302	992	Private	0.03
		307	615	Private	0.17
		938	613	Government	0.09
		596	621	Private	0.04
		813	668	Private	0.09
		156	664	Private	0.06
		156	667	Private	0.05
		307	665	Private	0.04
		704	663	Private	0.01

[F. No. NHAI/11014/3D/PIU(KGP)/2003/CPD(CK)]

A. V. SINGH, Secy.